



नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\begin{array}{r} 2.5 \\ +7.6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9.6 \\ +4.5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9.4 \\ +7.2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2.7 \\ +2.8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8.9 \\ +3.6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3.9 \\ +6.4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4.8 \\ +4.7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7.5 \\ +9.8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9.8 \\ +5.3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4.4 \\ +8.6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6.5 \\ +3.5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9.3 \\ +5.5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7.2 \\ +5.9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4.2 \\ +4.2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3.7 \\ +3.9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3.1 \\ +8.3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3.5 \\ +6.1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7.3 \\ +9.8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5.3 \\ +7.4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9.3 \\ +9.6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4.3 \\ +8.9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5.9 \\ +5.1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7.3 \\ +4.1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5.7 \\ +3.5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8.1 \\ +5.3 \\ \hline \end{array}$$